



तथ्य

घरों में लगने वाली आगों में से 45% रसोईघर से शुरू होती हैं। 2004/5 के दौरान एन एस डब्ल्यू अग्नि शामक कर्मचारी (NSW Fire Brigades) रसोईघर में आग लगने की 1,955 घटनाओं के स्थल पर उपस्थित हुए। इनमें से ९८८ रसोईघर में बिना देखरेख के भोजन पकता हुआ छोड़ दिये जाने के कारण हुई थीं।

क्या आपका घर आग से सुरक्षित है ?

रसोईघर में आग से अधिकतम सुरक्षा के लिए हम निम्नलिखित सुझाव देते हैं :

- बिना देखरेख के भोजन पकता हुआ छोड़ देने से आग लग सकती है, यदि आपको भोजन पकाने समय रसोईघर से जाना पड़े तो हाटप्लेट/खाना बनाने वाली आग) बन्द कर दीजिए।
- भोजन पकाने समय ढीली आस्तीन के कपड़े न पहनें।
- भोजन पकाने समय बच्चों को हाटप्लेट व अवन से दूर रखें, स्टोव-गार्ड लगवाने के विषय में विचार करें।
- रसोई के तौलिए, अवन के दस्ताने और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को स्टोव या चूल्हों (cooktops) से काफी दूर रखें।
- खाना पकाने वाले तेल को सावधानी के साथ इस्तेमाल करें, इसे धीमे-धीमे गरम करें और सही माप का बर्तन प्रयोग करें तथा आग इतनी कम रखें कि चिकनाई के छींटे न छिटकें।
- भगोने व कढ़ाई के हथिये को अन्दर की ओर घुमा दें जिससे कि वे टकराकर कर न उलट जाएँ।
- अपने स्टोव की झंझरी (stove grill) को इस्तेमाल के बाद हर बार साफ करें और रेंज हुड की फिल्टरों की (filters) तथा भोजन पकाने के अन्य सभी उपकरणों की नियमित रूप से सफाई करें।
- चिकनाई में लगी आग पानी से नहीं बुझती-जलते हुए तेल पर पानी कभी न फेंकें। इस प्रकार की आग पर पानी डालने से आग और अधिक तेजी से फैल सकती है और इससे भयानक रूप से जलने के घाव होते हैं।
- रसोईघर में अग्नि शामक उपकरण लगावाएँ तथा आग बुझाने वाला कम्बल रखें और यह जान लें कि वे कैसे प्रयोग किए जाते हैं। वे चूल्हे (stove) से एक मीटर दूर तथा चूल्हे व निकटतम दरवाजे के बीच में रखे होने चाहिए।
- चूल्हे व सिंक के आसपास खुरदरी चटाई लगवाने पर विचार करें।
- यदि खाना पकाने के तेल में आग लग जाती है, तो हाटप्लेट / (खाना बनाने वाली आग) बन्द कर दीजिए और बर्तन पर ढकना सरका दें या आग बुझाने के लिए आग बुझाने वाले कम्बल का प्रयोग करें। गरम या जलते हुए तेल के बर्तन को घर में से न ले जाएँ क्योंकि इससे आग फैल सकती है तथा गम्भीर घाव हो सकते हैं। तेल टंडा होने पर ही ढकना हटाएँ क्योंकि तेल फिर से आग पकड़ सकता है।
- यदि रसोईघर में आग लग जाती है और अधिक उम्र या अन्य किसी कारण से यदि आप को लगता है कि आप आग बुझाने का प्रयास नहीं कर सकते तो उपकरणों के खटके बन्द कर दें, स्थान छोड़ दें तथा किसी सुरक्षित फ़ोन से अग्नि शामक केन्द्र को तीन शून्य (000) पर फ़ोन करें।
- यह सुनिश्चित करें कि इस्तेमाल के बाद खाना पकाने के उपकरणों के खटके बन्द कर दिए हैं।

एन एस डब्ल्यू अग्नि शामक केन्द्र व एन एस डब्ल्यू ग्रामीण अग्नि सेवा का सह-उद्योग

ए सी टी अग्नि शामक केन्द्र व ए सी टी ग्रामीण अग्नि सेवा (ACT Fire Brigade and ACT Rural Fire Service)

अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय अग्नि शामक केन्द्र या अग्नि नियन्त्रण केन्द्र से सम्पर्क करें

अथवा देखें : www.fire.nsw.gov.au या www.rfs.nsw.gov.au या www.esa.act.gov.au

सुरक्षा के लिए अन्य सुझाव

- यह सुनिश्चित करें कि बिजली के सभी उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं।
- रसोईघर के लिए विशेष आग के खतरे की घंटी उपलब्ध है, उसे लगवाने की सोचें परन्तु ध्यान रहे कि खाना पकाने के धुएँ से भी झूठे अलार्म बज सकते हैं।

आपातकाल में 000 नम्बर पर फ़ोन करें